



भारत का राजपत्र The Gazette of India.

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 179]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 14, 1972/श्रावण 23, 1894

No. 179]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 14, 1972/SRAVANA 23, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 14th August 1972

SUBJECT. - *Trade with Bangladesh during the period from 28th March, 1972 to 27th March, 1973.*

No. 117-ITC(PN)/72.—Attention is invited to the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 57-ITC(PN)/72 dated the 20th April, 1972 pertaining to trade with Bangladesh during the period from 28th March, 1972 to 27th March, 1973, as amended by the Ministry of Foreign Trade Public Notices No. 76 ITC(PN)/72 dated the 1st June, 1972, and No. 88-ITC(PN)/72 dated the 17th June, 1972.

2. It has been decided that the description of goods viz "Infant Milk Food" against Serial No. 13 in Annexure I to the said Public Notice dated the 20th April, 1972 may be amended to read as under:—

"Infant Milk Food,
Malted Milk Food".

3. Annexure I to the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 57-ITC(PN)/72 dated the 20th April, 1972 may be deemed to have been amended accordingly.

K. T. SATARAWALA,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1972

विषय .—28-3-1972 से 27-3-1973 की अवधि के दौरान बांगला देश के साथ व्यापार

सं० 117-आई० टी० सी० (पी० एन०)/72 .—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 76-आई० टी० सी० (पी० एन०)/72, दिनांक 1 जून 1972 और 88-आई० टी० सी० (पी० एन०)/72 दिनांक 17 जून, 1972 द्वारा यथासंशोधित 28-3-72 से 27-3-73 की अवधि के दौरान बांगला देश से व्यापार से सम्बन्धित विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 57-आई० टी० सी० (पी० एन०)/72, दिनांक 20 अप्रैल 1972 की और ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. यह निश्चय किया गया है कि उक्त सार्वजनिक सूचना 20 अप्रैल, 72 के अनुबन्ध 1 में क्रम संख्या 13 के सामने के माल के व्यौरे को अर्थात् "शिशु दुग्धाहार" को संशोधित कर निम्न प्रकार से पढ़ा जाए :—

"शिशु दुग्धाहार,
माल्ट मिश्रित दुग्धाहार" ।

3. विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 57-आई० टी० सी० (पी० एन०)/72, दिनांक 20 अप्रैल, 72 के अनुबन्ध को तदनुसार संशोधित किया गया समझा जाए ।

के० टी० सतारावाला,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।